



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 6 जुलाई, 2022

आषाढ़ 15, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

संख्या 914/77-3-22-63(एम)-2021

लखनऊ, 6 जुलाई, 2022

अधिसूचना

प0आ0-156

चूंकि प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 496/77-3-22-63(एम)-2021, दिनांक 7 अप्रैल, 2022, लोक प्रयोजन अर्थात् उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु अपेक्षित जिला मेरठ, तहसील सदर के ग्राम बधौली में क्षेत्रफल 12.4468 हेक्टेयर, अटौला में क्षेत्रफल 0.1150 हेक्टेयर, शाफियाबाद लौटी में क्षेत्रफल 0.4083 हेक्टेयर, खडखडी में क्षेत्रफल 0.5770 हेक्टेयर, गोविन्दपुर में क्षेत्रफल 0.1274180 हेक्टेयर, अतराडा में क्षेत्रफल 1.2950 हेक्टेयर, बिजौली में क्षेत्रफल 5.4517352 हेक्टेयर एवं भगवानपुर में क्षेत्रफल 2.4250 हेक्टेयर अर्थात् कुल 22.8462532 हेक्टेयर भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई थी और अंततः दिनांक 7 अप्रैल, 2022 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर, सदर, जिला मेरठ को परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन उपबन्धों के अनुसरण में प्रस्तुत की गयी कलेक्टर की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा करती हैं कि उनका यह समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि का क्षेत्रफल लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है और अनुसूची "ख" में यथा-प्रदत्त ग्राम, परगना और जिला में कोई भूमि विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए चिन्हांकित नहीं की गयी है (इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है)।

राज्यपाल अग्रतर उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन मेरठ के कलेक्टर को इस आशय की घोषणा प्रकाशित करने के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना को संक्षिप्त रूप में प्रकाशित करने के लिए निदेश देती हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है। (जिला मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि अर्जन से किसी परिवार का विस्थापित होना संभाव्य नहीं है। अतएव पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु कोई भूमि चिन्हित करने और पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।)

### अनुसूची-क

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
मेरठ	सदर	सरावा	बधौली	276	0.6440
				546	0.1680
				542	0.4040
				543	0.1510
				544	0.1010
				545	0.4430
				273	0.6810
				272	0.5570
				540	0.4190
				265	0.0115
				262	0.0650
				278	0.0240
				538	0.9250
				518	1.6790
				520	0.0670
				524	0.0680
				517	1.6300
				478 मि0	1.4142
				457	0.1560
				456	0.1690
				455	0.1300
				458	0.8210
				452	0.8080
				264	0.0780
				453	0.8320
				521	0.0011
			अटौला	176	0.008
				156	0.0240
				229	0.0650
				444	0.006
				1	0.0120
			शाफियाबाद लौटी	811	0.01
				1188	0.200
				1189	0.1560

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
मेरठ	सदर	सरावा	शाफियाबाद लौटी	817मि0	0.0413
				1287	0.001
			खडखडी	655	0.2460
				657	0.2460
				662	0.0690
				352	0.0130
				499	0.0030
			गोविन्दपुर	186	0.0410
				169	0.007208
				170	0.017917
				174	0.010333
				200	0.0208
				207	0.03016
			अतराडा	1472	0.3020
				1644	0.1030
				1638	0.1990
				1479	0.0560
				1466	0.0400
				1811	0.0010
				1795	0.0080
				1473	0.3700
				1797 मि0	0.2160
			बिजौली	432	0.0154682
				457मि0	0.1845
				456मि0	0.0326
				426मि0	1.0915
				428मि0	0.2942
				346	0.8911
				377	0.0660
				383	0.153875
				384मि0	0.002792
				1162मि0	0.0870
				311मि0	0.2660
				341	1.6370
				344	0.5354
				463	0.1943
			भगवानपुर	86	0.4620
				87	0.1360
				91मि0	1.8270
कुल योग					22.8462532

**अनुसूची-ख**  
**(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित भूमि)**

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिह्नित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
मेरठ	सदर	सरावा/मेरठ	शून्य	शून्य	शून्य

**टिप्पणी**—अर्जन के प्रयोजनार्थ उक्त भूमि का नक्शा कलेक्टर, मेरठ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,  
अरविन्द कुमार,  
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 914 /LXXVII-3-22-63(M) -2021, dated July 6, 2022 :

No. 914 /LXXVII-3-22-63(M) -2021

*Dated Lucknow, July 6, 2022*

WHEREAS preliminary notification no. 496/LXXVII-3-22-63(M)-2021, dated April 7, 2022 was issued under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) (hereinafter referred to as the "said Act"), in respect of total 22.8462532 Hectares of land is required in the Village Badholi Area 12.4468 Hect., Atola Area 0.1150 Hect., Shafiabad Loti Area 0.4083 Hect., Khadkhadi Area 0.5770 Hect., Govindpur Area 0.1274180 Hect., Atrada Area 1.2950 Hect., Bijoli Area 5.4517352 Hect. and Bhagwanpur Area 2.4250 Hect. Tehsil Sadar, district Meerut is required for public purpose namely, Ganga Expressway Project through Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority and lastly published on April 7, 2022. The Deputy Collector, Sadar, district Meerut was appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the project-affected families;

NOW, THEREFORE, after considering the report of the Collector, Meerut submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of section 15 of the said Act, the Governor is pleased to declare under sub-section (1) of section 19 of the said Act that she is satisfied that the area of the land mentioned in Schedule-A below is needed for public purpose and no land in the Village, Pargana and District as given in Schedule-B has been identified for Rehabilitation and Resettlement of the displaced families (No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project).

The Governor is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the said Act to direct the Collector of Meerut to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is attached herewith. (No family is likely to be displaced due to land acquisition for Ganga Expressway Project in district Meerut. Hence there is no need for identification of any land for Rehabilitation and Resettlement and publication of summary of Rehabilitation and Resettlement Scheme.)

## SCHEDULE-A

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired (In Hect.)
1	2	3	4	5	6
Meerut	Sadar	Sarawa	Badholi	276	0.6440
				546	0.1680
				542	0.4040
				543	0.1510
				544	0.1010
				545	0.4430
				273	0.6810
				272	0.5570
				540	0.4190
				265	0.0115
				262	0.0650
				278	0.0240
				538	0.9250
				518	1.6790
				520	0.0670
				524	0.0680
				517	1.6300
				478 Mi	1.4142
				457	0.1560
				456	0.1690
				455	0.1300
				458	0.8210
				452	0.8080
				264	0.0780
				453	0.8320
				521	0.0011
			Atola	176	0.008
				156	0.0240
				229	0.0650
				444	0.006
				1	0.0120
			Shafiabad Loti	811	0.01
				1188	0.200
				1189	0.1560
				817 Mi	0.0413
				1287	0.001
			Khadkhadi	655	0.2460
				657	0.2460
				662	0.0690
				352	0.0130
				499	0.0030
			Govindpur	186	0.0410
				169	0.007208
				170	0.017917
				174	0.010333
				200	0.0208
				207	0.03016
			Atrada	1472	0.3020
				1644	0.1030
				1638	0.1990

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired (In Hect.)
1	2	3	4	5	6
Meerut	Sadar	Sarawa	Atrada	1479	0.0560
				1466	0.0400
				1811	0.0010
				1795	0.0080
				1473	0.3700
				1797 Mi	0.2160
			Bijoli	432	0.0154682
				457 Mi	0.1845
				456 Mi	0.0326
				426 Mi	1.0915
				428 Mi	0.2942
				346	0.8911
				377	0.0660
				383	0.153875
				384 Mi	0.002792
				1162 Mi	0.0870
				311 Mi	0.2660
				341	1.6370
				344	0.5354
				463	0.1943
			Bhagwanpur	86	0.4620
				87	0.1360
				91 Mi	1.8270
GRAND TOTAL					<b>22.8462532</b>

## SCHEDULE-B

## (Land Identified as Settlement Area for Displaced Families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area earmarked for rehabilitation (In Hect.)
1	2	3	4	5	6
Meerut	Sadar	Sarawa/Meerut	Zero	Zero	Zero

NOTE –A plan of land may be inspected in the Office of the Collector, Meerut for the purpose of acquisition.

By order,  
ARVIND KUMAR,  
Apar Mukhya Sachiv.